

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-11001

सं. ईसीआई/प्रे.नो./72/2017

दिनांक: 01 सितम्बर, 2017

प्रेस नोट

श्री सुनील अरोड़ा द्वारा 01 सितम्बर, 2017 को नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करना।

श्री सुनील अरोड़ा ने दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को नव निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 13 अप्रैल, 1956 को जन्मे श्री अरोड़ा राजस्थान केडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे सूचना एवं प्रसारण, भारत सरकार से सचिव के रूप में 30 अप्रैल, 2016 को सेवानिवृत्त हुए। 36 वर्षों की अपनी लंबी सेवा के दौरान उन्होंने केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार में कई महत्वपूर्ण पद धारित किए।

श्री अरोड़ा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले 15 दिसम्बर, 2016 तक कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में महानिदेशक (डीजी) के रूप में कार्य कर रहे थे।

उन्होंने भारत सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में, वर्ष 2002 से 2005 के बीच तत्कालीन इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक; एयर इंडिया; एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निकाय इत्यादि के निदेशक मंडल के सदस्य जैसे कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। राज्य स्तर पर श्री अरोड़ा ने वर्ष 2005 और वर्ष 2013 के बीच राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (आरआईआईसीओ) के अध्यक्ष के रूप में, वर्ष 2013 से 2014 के बीच राजस्थान सरकार में अपर मुख्य सचिव (गृह) जैसे कई प्रमुख और महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।



श्री सुनील अरोड़ा, भारत के नए निर्वाचन आयुक्त

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव (मीडिया)